



## लोन दिलाने के नाम पर चल रहा था बाइक फाइनेंस का खेल

-स्वाट टीम और चकेरी पुलिस ने पूरे गैंग को दबोचा 20 गाड़ियां बरामद

-पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर गरीब लोगों से लेते थे उनके प्रमाण पत्र

-प्रति बाइक पर कमाते थे 30-40 हजार रुपये

-नये वाहन के मूल्य से दस हजार कम में बेंचते थे

कानपुर: बैंक के कामकाज से अनजान भोले भाले गरीब लोगों के साथ ठगी करने वाला बड़ा गैंग स्वाट टीम के हथ्थे चढ़ा है। गैंग लोगों से उनके बैंक की पास बुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य प्रपत्र लेकर फायनेन्स कम्पनी से स्कूटर/मोटरसाइकिल को फायनेन्स कराकर धोखा दे रहा था। पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार करके उसके पास से फायनेंस कराए गये 19 दोपहिया वाहनों को बरामद किया है।

पुलिस के हथ्थे चढ़ा ग्वालटोली निवासी संदीप राठौर की तलाश क्राइम ब्रांच को लंबे समय से थी। सोमवार को जब वह अपनी बाइक से छावनी की तरफ से जाजमऊ आ रहा तभी स्वाट टीम और चकेरी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। संदीप ने पूछताछ में विभिन्न गाड़ियों को विभिन्न कम्पनियों से कुछ बेच देना कुछ घर पर व कुछ अन्य स्थानो पर छिपाकर रखने की बात कबूल की है। पुलिस ने उसके पास से कुल 20 मोसा / स्कूटी बरामद कराया।

### पर्सनल लोन के नाम पर झांसा

लोगों से कागज लेने के बाद भी जब पर्सनल लोन न होता तो लोग शिकायत करते कि गाड़ी क्यों फाइनेंस कराई तो झांसा देने के लिए संदीप कहता कि पर्सनल लोन के लिए पहले से कोई लोन होना चाहिए। इसके बाद लोगों को 10-15 हजार रुपये देकर शांत करा देते। साथ ही कहते कि अगर कोई बैंक वाला घर आए तो दूसरी जगह किराए का कमरा ले लेना, तुम्हे कोई किस्त भी नहीं देनी।

## फाइनेंस वाहन को बेंचते थे

दूसरे के नाम पर वाहन फाइनेंस कराने के बाद संदीप किसी अन्य ग्राहक को नये वाहन के दाम से 5-10 हजार कम में यह वाहन बेंच देते थे। इससे प्रति वाहन 30-40 हजार रुपये बचते थे। करीब दो सालों से यह धंधा चल रहा था। कोई मुंह न खोले इसके लिए वह पीड़ितों से सादे स्टांप पर हस्ताक्षर भी करवा लेते थे।

### बरामदगी:-

1. UP78GJ5276 ई0न0 AF212436370 चे0न0 MB8DP12DLL5451884
2. UP78GL2154 ई0न0 AF212486299 चे0न0 MB8DP12DBB8554034
3. UP78FS3228 ई0न0 E3Y4E0219981 चे0न0 ME15ED15CJ0162569
4. UP78FP6022 ई0न0 HA10ACJHL54136 चे0न0 MELHAR184JHL20580
5. UP78EY1633 ई0न0 CE6GH2035645 चे0न0 MD634LE66H2G37437
6. UP78GB7519 ई0न0 AF212222389 चे0न0 MB8DP11ALK8G41180
7. UP78GK7847 ई0न0 AF212471644 चे0न0 MB8DP12DAM8528196
8. UP78GK2832 ई0न0 AK3NL2X19547 चे0न0 MD626AK36L2N20466
9. UP78GK6490 ई0न0 AF212467412 चे0न0 MB8DP12DAM8520402
10. UP78GK9005ई0न0HA11EVLHLC8761चे0न0 MBLHAW117LHL80373
11. UP78GM0758 ई0न0 JF91EDO142296 चे0न0 ME4JF913CMD143100
12. UP78FR5464 ई0न0 JF50EU7427494 चे0न0 ME4JF50AMJU427546
13. UP78FQ0248 ई0न0 JA06EHJ9J23221 चे0न0 MBLJAR16XJ9J20555
14. UP78EL4146ई0न0HA10EVGKF48238 चे0न0 MBLHA10BSGHF43488
15. UP78GJ9631 ई0न0 AF216474764 चे0न0 MB8DP12DKL8415168
16. UP78FS8862 ई0न0 AF215195361 चे0न0 MB8DP11AAK8B49006